



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 53] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 31—जनवरी 6, 2006 (पौष 10, 1927)

No. 53] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 31—JANUARY 6, 2006 (PAUSA 10, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची		
भाग I--खण्ड-1--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	पृष्ठ	भाग II--खण्ड-3--उप-खण्ड (iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)
भाग I--खण्ड-2--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1601	
भाग I--खण्ड-3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1221	
भाग I--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	13	भाग II--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
भाग II--खण्ड-1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	2549	भाग III--खण्ड-1--उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं
भाग II--खण्ड-1क--अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*	
भाग II--खण्ड-2--विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*	भाग III--खण्ड-2--पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस
भाग II--खण्ड-3--उप-खण्ड (i)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	641	
भाग II--खण्ड-3--उप-खण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*	भाग III--खण्ड-3--मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं
	*	भाग III--खण्ड-4--विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं
	3027	
	373	भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस
	*	भाग V--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

(1601)

CONTENTS

	Page		Page
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1601	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1221	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	13	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	2199
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	2549	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	641
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the Authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	3027
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	373
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*		

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 दिसम्बर 2005

संकल्प

सं. 8-10/2003-यू.-5—

जबकि राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद, हैदराबाद के संगम ज्ञापन और नियमावली, 1995 के नियम 4 के अनुसरण में भारत सरकार ने, दिनांक 25 फरवरी, 2004 के संकल्प संख्या एफ0 21-6/99-यू0-5 के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद की परिषद का गठन किया था।

अब उपर्युक्त संकल्प द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद की परिषद के लिए पहले से नामित 3 व्यक्तियों के अतिरिक्त निम्नलिखित सात व्यक्तियों को नियम 4 (III) के अनुसार नामित किया जाता है :

- | | | |
|----|---|-------|
| 1. | श्री हरीश प्रताप सिंह
निदेशक (सेवानिवृत्त),
सी.आर.आई.डी.ए., हैदराबाद
12/610, इंदिरा नगर विस्तार क्षेत्र, लखनऊ | सदस्य |
| 2. | श्री पी.वी. राजागोपाल
एकता परिषद, गांधी भवन,
श्यामला हिल्स,
भोपाल- 462002. | सदस्य |
| 3. | प्रो० के.एस. चालम
प्रोफेसर, अर्थशास्त्र
निदेशक, अर्थशास्त्र स्टाफ कालेज,
आन्ध्रा विश्वविद्यालय,
विशाखापत्तनम. | सदस्य |

4.	प्रोफेसर (सुश्री) आरमेटी देसाई पूर्व अध्यक्षा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, रेले चैम्बर्स, राघवजी रोड, ऑफ अगस्त क्रांति मार्ग, मुम्बई- 400036.	सदस्य
5.	प्रोफेसर (सुश्री) इकबाल खानम प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़- 202002.	सदस्य
6.	डा. सुब्बैया पोन्नुराज ग्रामीण स्वास्थ्य एवं सफाई विभाग के अध्यक्ष, गांधी ग्राम ग्रामीण संस्थान, तमिलनाडु	सदस्य
7.	श्री वी.एस.गिरी रेड्डी (पूर्व) मास्टर एयरक्राफ्ट अनुरक्षण तकनीशियन एवं महासचिव, लेबर सेल, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (आई) एफ-5 श्रीनिवास टवर्स, मेन रोड, गाजुवाका, विशाखापत्तनम (आन्ध्र प्रदेश)	सदस्य
नियम 4 (iv) के अंतर्गत		
8. से 11.	छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड की राज्य सरकार के एक-एक प्रतिनिधि	
नियम 4 (v) के अंतर्गत		
12.	सचिव, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग	पदेन सदस्य
13.	सचिव, कृषि और सहकारिता मंत्रालय या उनके नामिती	-वही-
14.	सचिव, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) या उनके नामिती	-वही-

15. सचिव, -वही-
योजना आयोग या उनके नामिती
16. सचिव, पदेन सदस्य
ग्रामीण विकास विभाग या उनके नामिती
17. सचिव, -वही-
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

नियम 4 (vi) के अंतर्गत

18. सदस्य सचिव सदस्य सचिव
राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद
हैदराबाद

2. उपर्युक्त सदस्यों का कार्यकाल शेष अवधि अर्थात् 24 फरवरी, 2007 तक के लिए होगा।
3. इसके अतिरिक्त संगम ज्ञापन के नियम 4(11) और राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद के नियमों में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार एतद् द्वारा श्री हरीश प्रताप सिंह, निदेशक (सेवानिवृत्त) एमआरआईडीए, हैदराबाद को राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद्, हैदराबाद के उपाध्यक्ष के रूप में नामित करती है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी सम्बंधित व्यक्तियों को भेजी जाए।

सुनिल कुमार
संयुक्त सचिव

संकल्प

सं. 8-10/2003-यू.-5—

राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद्, हैदराबाद के संगम ज्ञापन के नियम 14 तथा नियमावली, 1995 के अनुसरण में भारत सरकार दिनांक 25 फरवरी, 2004 के संकल्प संख्या एफ. 21-6/99 यू.5 द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद् के शासी निकाय का गठन करती है।

अब उपर्युक्त संकल्प द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद के शासी निकाय के लिए पहले से नामित 3 व्यक्तियों के अतिरिक्त निम्नलिखित दो व्यक्तियों को नियमावली 14(iv) के अनुसार नामित किया जाता है:

1. श्री पी०वी० राजागोपाल, सदस्य
एकता परिषद्, गांधी भवन,
श्यामला हिल्स,
भोपाल
2. प्रो० के०ए० चलम, सदस्य
अर्थशास्त्र प्रोफेसर,
निदेशक अर्थशास्त्र स्टाफ कालेज,
आंध्र विश्वविद्यालय,
विशाखापट्टनम

नियम 14 (11) के अंतर्गत

3. सचिव पदेन सदस्य
माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा विभाग
4. सचिव पदेन सदस्य
वित्त मंत्रालय
(व्यय विभाग)
या उसके नामिति
5. सचिव -वही-
योजना आयोग
या उसके नामिति
6. सचिव -वही-
ग्रामीण विकास विभाग
या उसके नामिति
7. सचिव -वही-
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

नियम 14 (1) के अंतर्गत

8. सदस्य सचिव
राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद्
हैदराबाद

सदस्य सचिव

2. उपर्युक्त सदस्यों का कार्यकाल शेष अवधि अर्थात् 24 फरवरी, 2007 तक के लिए होगा।

3. इसके अतिरिक्त संगम ज्ञापन के नियम 14 (1) और राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद् के नियमों में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार एतद् द्वारा श्री हरीश प्रताप सिंह, निदेशक (सेवानिवृत्त) सीआरआईडीए, हैदराबाद को राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद्, हैदराबाद के उपाध्यक्ष के रूप में नामित करती है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी सम्बंधित व्यक्तियों को भेजी जाए।

सुनिल कुमार
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF SECONDARY & HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 12th December 2005

RESOLUTION

No. 8-10/2003.U-5—

Whereas in pursuance of Rule 4 of Memorandum of Association and Rules, 1995 of the National Council of Rural Institutes (NCRI), Hyderabad, the Government of India constituted the Council of NCRI vide Resolution No. F.21-6/99.U-5 dated 25th February 2004.

Now, in addition to the three persons already nominated vide above referred resolution the Council of NCRI, the following seven persons are nominated as per Rules 4(iii)

- | | | |
|----|---|--------|
| 1. | Shri Harish Pratap Singh
Director (Retd.),
CRIDA, Hyderabad
12/610, Indiranagar Extension Area, Lucknow | Member |
| 2. | Shri P. V. Rajagopal
Ekta Parishad, Gandhi Bhawan,
Shyamala Hills,
Bhopal- 462 002. | Member |
| 3. | Prof. K. S. Chalam
Prof. Of Economics
Director Economic Staff College,
Andhra University,
Visakhapatnam. | Member |
| 4. | Prof. (Ms). Armaity Desai
Former Chairperson, UGC
Rele Chambers, Raghavji Road,
Off. August Kranti Marg,
Mumbai – 400 036.. | Member |
| 5. | Prof.(Ms.) Iqbal Khanam
Professor,
Department of Political Science,
Aligarh Muslim University,
Aligarh- 202 002. | Member |

- | | | |
|------|--|--------|
| 6. | Dr. Subbiah Ponnuraj
HOD of Rural Health & Sanitation,
Gandhigram Rural Institute,
Tamil Nadu. | Member |
|
 | | |
| 7. | Shri V. S. Giri Reddy
(Ex) Master Aircraft Maintenance Technician
and General Secretary, Labour Cell, AICC(I)
F-5, Srinivasa Towers, Main Road,
Gajuwaka, Vishakapatnam (A.P.) | Member |

Under Rule 4(iv)

- 8 to 11. A representative each of the State
Government of Chattisgarh, Himachal Pradesh, Jammu &
Kashmir and Jharkhand.

Under Rule 4(v)

- | | | |
|------|--|-------------------|
| 12. | Secretary
Deptt. of Secondary & Higher Education. | Ex-Officio Member |
|
 | | |
| 13. | Secretary
Ministry of Agriculture and Cooperation
or his nominee. | -do- |
|
 | | |
| 14. | Secretary
Ministry of Finance
(Deptt. of Expenditure)
Or his nominee. | -do- |
|
 | | |
| 15. | Secretary
Planning Commission
Or his nominee. | -do- |
|
 | | |
| 16. | Secretary
Deptt. of Rural Development
Or his nominee. | -do- |
|
 | | |
| 17. | Secretary
University Grants Commission. | -do- |

Under rule 4(vi)

- | | | |
|-----|---|------------------|
| 18. | Member Secretary
National Council for Rural Institute (NCRI)
Hyderabad. | Member Secretary |
|-----|---|------------------|

2. The term of the above members would be for remainder of the period i.e. upto 24th February 2007.
3. Further, in exercise of the powers contained in Rules 4(ii) of the Memorandum of Association and Rules of the National Council of Rural Institutes, Government of India hereby nominates Shri Harish Pratap Singh, Director (Retd.), CRIDA, Hyderabad as the Vice-Chairman of the National Council of Rural Institute, Hyderabad.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

Orderd also that a copy of the Resolution may be sent to all concerned.

SUNIL KUMAR
Joint Secy.

RESOLUTION

No. 8-10/2003. U-5—

Whereas in pursuance of Rule 14 of Memorandum of Association and Rules, 1995 of the National Council of Rural Institutes (NCRI), Hyderabad, the Government of India constituted the Governing Body of NCRI vide Resolution No. F.21-6/99.U-5 dated 25th February 2004.

Now, in addition to the three persons already nominated vide above referred resolution the Governing Body of NCRI, the following two persons are nominated as per Rules 14(iv)

- | | | |
|----|--|--------|
| 1. | Shri P. V. Rajagopal
Ekta Parishad, Gandhi Bhawan,
Shyamala Hills,
Bhopal. | Member |
| 2. | Prof. K. S. Chalam
Prof. Of Economics
Director Economic Staff College,
Andhra University,
Visakhapatnam. | Member |

Under Rule 14(iii)

- | | | |
|----|--|-------------------|
| 3. | Secretary
Deptt. of Secondary & Higher Education. | Ex-Officio Member |
| 4. | Secretary
Ministry of Finance
(Deptt. of Expenditure)
Or his nominee. | |

- | | | |
|----|---|-------------------|
| 5. | Secretary
Planning Commission
Or his nominee. | Ex-Officio Member |
| 6. | Secretary
Deptt. of Rural Development
Or his nominee. | -do- |
| 7. | Secretary
University Grants Commission. | -do- |

Under rule 14(v)

- | | | |
|----|---|------------------|
| 8. | Member Secretary
National Council for Rural Institute (NCRI)
Hyderabad. | Member Secretary |
|----|---|------------------|

2. The term of the above members would be for remainder of the period i.e. up to 24th February 2007.

3. Further, in exercise of the powers contained in Rules 14(v) of the Memorandum of Association and Rules of the National Council of Rural Institutes, Government of India hereby nominates Shri Harish Pratap Singh, Director (Retd.), CRIDA, Hyderabad as the Vice-Chairman of the National Council of Rural Institute, Hyderabad.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

Orderd also that a copy of the Resolution may be sent to all concerned.

SUNIL KUMAR
Joint Secy.